



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1939 (श10)
(सं0 पटना 847) पटना, सोमवार, 18 सितम्बर 2017

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2017

सं0 सं0का0-1/वि0मं0 (महानुभाव)-07-06/2013-625—उप सचिव, बिहार विधान परिषद के ज्ञापक-1776 (1) वि0प0, दिनांक 10.08.2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय सदन नेता, बिहार विधान मंडल ने श्री रजनीश कुमार, माननीय सं0वि0प0 को बिहार विधान परिषद में उप मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल के रूप में मनोनीत किया है। उक्त मनोनयन को माननीय उप सभापति, बिहार विधान परिषद द्वारा दिनांक 08.08.2017 के प्रभाव से मान्यता प्रदान की गयी है, जिसे बिहार विधान परिषद के अधिसूचना संख्या-1775 (1) वि0प0 दिनांक 10.08.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 (ख) के प्रावधानों के तहत श्री रजनीश कुमार, सं0वि0प0 को दिनांक 08.08.2017 के प्रभाव से सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 847-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>